

November 26, 2025

**BSE Limited** 

Corporate Services Department Phiroze Jeejeeboy Towers Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Symbol: QUINT Scrip Code: 539515

Subject: Newspaper Advertisement- Special Window for Re-lodgement of Transfer

**Requests of Physical Shares** 

Reference: Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement, published on November 26, 2025, in the columns of English daily "Financial Express", all editions, and Hindi daily "Jansatta", Delhi edition, re-informing the Members about opening of the special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares, in accordance with the Securities and Exchange Board of India circular <a href="SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97">SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97</a> dated July 2, 2025.

This intimation will also be hosted on the website of the Company i.e. www.quintdigital.in.

We request you to take the above information on record.

Yours sincerely
For Quint Digital Limited

Tarun Belwal Company Secretary and Compliance Officer

M.No: A39190

Encl: As above

#### **QUINT DIGITAL LIMITED**

(formerly known as Quint Digital Media Limited)

			Pre-Issue shareholding as at the date of Advertisement		Post-Issue shareholding as at Allotment (8)				
		Number of	Share holding (in %) <sup>(2)</sup>	At the lower end of the price band (Rs. 110)		At the upper end of the price band (Rs. 118)			
S. No.	Name of the Shareholders	Equity Shares <sup>(3)</sup>		Number of Equity Shares	Shareholding (in %) (2)*	Number of Equity Shares	Shareholding (in %)		
	Total (B) NIL								
Ï	Total shareholding of Promoters and Promoter Group (A+B)	24,00,000	96.00	24,00,000	70.00	24,00,000	70.00		
C.	Top 10 Shareholders of the Company as at Allotment (other than A & B above)								
1.	KIFS Finstock Limited	40,000	1.60	40,000	1.17	40,000	1.17		
2.	Narender Kumar Daga	10,000	0.40	10,000	0.29	10,000	0.29		
3.	Akshit Lakhotia	10,000	0.40	10,000	0.29	10,000	0.29		
4.	Sandeep Jain and Sons HUF	10,000	0.40	10,000	0.29	10,000	0.29		
5.	Ruchi Mittal	10,000	0.40	10,000	0.29	10,000	0.29		
6.	Ankit Jain	10,000	0.40	10,000	0.29	10,000	0.29		
7.	Sanchit Gupta	5,000	0.20	5,000	0.15	5,000	0.15		
8.	Saumya Lakhotia	5,000	0.20	5,000	0.15	5,000	0.15		
	Total (C)	1,00,000	4.00	1,00,000	2.92	1,00,000	2.92		
	Total (D=A+B+C)	25,00,000	100.00	25,00,000	72.92	25,00,000	72.92		

\*Subject to finalisation of the basis of allotment.

- Includes all options that have been exercised until date of advertisement and the post issue shareholding shall be updated in the Prospectus based on transfers exercised until such date.
- Assuming full subscription in the Issue (fresh issue). The post-issue shareholding details as at allotment will be based on the actual subscription and the final Issue price and updated in the Prospectus, subject to finalization of the basis of allotment. Also, this table assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement and allotment (if any such transfers occur prior to the date of the Prospectus, it will be updated in the shareholding pattern in the Prospectus).

INDICATIVE TIMELINES FOR THE ISSUE

Sequence of Activities	Listing within T+3 days (T is Issue Closing Date)
Application Submission by Investors	Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) - Upto 5 pm on T Day
	Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc) – Upto 4 pm on T Day.
	Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications) – Upto 3 pm on T Day.
	Physical Applications (Bank ASBA) – Upto 1 pm on T Day.
	Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non- Individual Applications of QIBs and NIIs) – Upto 12 pm on T Day and Syndicate members shall transfer such applications to banks before 1 pm on T Day
Bid Modification	From Issue opening date up to 5 pm on T Day
Validation of bid details with depositories	From Issue opening date up to 5 pm on T Day
Reconciliation of UPI mandate transactions (Based on the guidelines issued by NPCI from time to time):	On Daily basis
Among Stock Exchange – Sponsor Banks – NPCI and NPCI – PSPs/TPAPs** –	Merchant Banker to submit to SEBI, sought as and when.
Issuer Banks; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines.	
UPI Mandate acceptance time	T day – 5 pm
Issue Closure	T day – 4 pm for QIB and NII categories
	T day - 5 pm for retail individual investors and other reserved categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be completed before 9:30 AM on T+1 day.
Third party check on Non-UPI applications	On daily basis and to be completed before 1 pm on T+1 day.

Submission of final certificates:	UPI ASBA – Before 09:30 pm on T Day.
-For UPI from Sponsor Bank	All SCSBs for Direct ASBA - Before 07:30 pm on T Day
-For Bank ASBA, from all SCSBs	Syndicate ASBA - Before 07:30 pm on T Day
-For syndicate ASBA	95A 257 251
Finalization of rejections and completion of basis	Before 6 pm on T+1 day.
Approval of basis by Stock Exchange	Before 9 pm on T+1 day.
Issuance of fund transfer instructions in separate files for debit and unblock. For Bank ASBA and Online ASBA – To all SCSBs For UPI ASBA – To Sponsor Bank	Initiation not later than 09:30 am on T+2 day; Completion before 2 pm on T+2 day for fund transfer; Completion before 4 pm on T+2 day for unblocking.
Corporate action execution for credit of shares	Initiation before 2 pm on T+2 day Completion before 6 pm on T+2 day
Filing of listing application with Stock Exchange and issuance of trading notice	Before 7:30 pm on T+2 day
Publish allotment advertisement	On website of Issuer, Merchant Banker and RTI - before 9 pm on T+2 day. In newspapers – On T+3 day but not later than T+4 day
Trading starts	T+3 day

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, please refer to the chapter titled "Our History and Certain Other Corporate Matters" beginning on page 177 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, please refer to the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" beginning on page 322 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The Liability of the members of the Company is Limited.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorized Share Capital of the Company is Rs. 4,00,00,000 divided into 40,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is Rs. 2,25,00,000 divided into 25,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on the page 65 of the Red Herring Prospectus.

#### NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:

ORIGINAL SIGNATORIES			CURR	RENT PROMOTERS		
Name of Promoters	Face Value (₹)	No. of Shares	Name of Promoters	Face Value (₹)	No. of Shares	
Hitesh Kumar Singla	10	5,000	Hitesh Kumar Singla	10	13,78,500	
Anil Kumar Sharma	10	5,000	Anil Kumar Sharma	10	3,37,500	
			Nikhil Singla	10	3,42,000	
	ľ:		Nitin Dixit	10	3,42,000	

LISTING: The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of the BSE Limited ("BSE SME"). Our Company has received an "In-principle" approval from the BSE for using their name in the Offer Document pursuant to letter dated October 23, 2025. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be BSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus dated November 25, 2025 has been submitted for registration to the ROC and Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "Disclaim Clause of SEBI" beginning on page 235 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Red Herring Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus for the full text of the 'Disclaimer clause of the BSE' beginning on page 236. of the Red Herring Prospectus.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 28 of the Red Herring Prospectus.

### **BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE**



### KHAMBATTA SECURITIES LIMITED

806, 8th Floor, Tower-B, World Trade Tower, Noida Sector-16. Uttar Pradesh-201301, India. Tel: +91-9953989693, 0120-4415469 Email: ipo@khambattasecurities.com

Investor Grievance Email: mbcomplaints@khambattasecurities.com Website: www.khambattasecurities.com

Contact Person: Mr. Chandan Mishra SEBI Registration No.: INM000011914

### REGISTRAR TO THE ISSUE



MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED

451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034, India. Telephone: 011-4781432

E-mail: ipo@maashitla.com Investor Grievance E-mail: investor.ipo@maashitla.com

Website: www.maashitla.com Contact Person: Mr. Mukul Agrawal

SEBI Registration No.: INR000004370

# COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER



Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Shikha Daruka

WA-89, 3rd Floor, Shakarpur, East Delhi-110092, India. Tel: +91 9958083332

E-mail: compliance@helloji.com

Website: www.helloji.com

post- issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or

Availability of Red Herring Prospectus: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the issue. Full copy of the Red Herring Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of BRLM at www.khambattasecurities.com and website of Company at www.helloji.com

SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com. Application Supported by Blocked Amount (ASBA): All investors in this Issue have to compulsorily apply through ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment,

Availability of Bid-Cum-Application forms: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Company: Helloji Holidays Limited, Book Running Lead Manager, Khambatta Securities Limited, Book Running Lead Manager, Running Lead Manager

amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund.

For more details on the issue process and how to apply, please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the chapter titled "Issue Procedure" beginning on page 261 of the Red Herring Prospectus. BANKER TO THE ISSUE: AXIS BANK LIMITED

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For Helloji Holidays Limited Hitesh Kumar Singla **Designation:** Managing Director DIN: 03287159

Place: New Delhi Date: November 25, 2025

Helloji Holidays Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, public issue of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus dated November 25, 2025 with the Registrar of Companies, NCT Of Delhi and Haryana. The Red Herring Prospectus is available on the website of the Book Running Lead Manager at www.khambattasecurities.com, the website of the BSE i.e. www.bseindia.com, and website of our Company at www.helloji.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Red Herring Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares

have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States or to, or for the account or benefit of, "U.S., persons" (as defined in Regulations under the securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933.

### QUINT DIGITAL LIMITED

(FORMERLY QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED) CIN: L63122DL1985PLC373314 Corp. Office: Carnoustie Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida-201301 Tel: 0120-4751818, Website: www.quintdigital.in Email: cs@thequint.com Notice with respect to Special Window for Re-Lodgement

of Transfer Requests of Physical Shares

#### Dear Members, In furtherance to our earlier newspaper advertisements published on July 26, 2025 and

September 26, 2025, we wish to restate that the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2 July 2025, has introduced a special window for re-lodgement of transfer requests for physical shares.

Pursuant to the said circular, investors who had submitted transfer requests for physica shares prior to April 01, 2019 (the date from which transfer of securities in physical mode was discontinued), and whose requests were rejected/ returned/ not attended due to deficiency in the documents/ process/ or otherwise, are now provided an opportunity to re-lodge such transfer requests with requisite documents.

Investors may re-lodge their earlier requests with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') along with requisite documents and rectifying deficiencies, during the special window period of six months from July 07, 2025, till January 06, 2026. The Investors may send the documents to the Company or RTA on any of the address given below:

## Quint Digital Limited

Place: Noida

The Company Secretary, Address- 403, Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi, 110008 Email: cs@thequint.com

Skyline Financial Services Private Limited Registrar and Share Transfer Agent Unit: Quint Digital Limited Address- A-506, Dattani Plaza, Andheri Kurla Road, Safeed Pool, Andheri - East, Mumbai- Maharashtra 400072 Email: pravin.cm@skylinerta.com

Pursuant to the SEBI circular dated July 02, 2025, the securities re-lodged for transfe (including those requests that are pending with the Company/RTA, as on date) shall be issued only in demat form, after following due process for such transfer-cum-demat requests. We urge all the investors who had submitted transfer requests in the past and are yet to receive shares due to deficiencies, to take benefit of this special window introduced in the interest of investors.

For Quint Digital Limited Sd/

Tarun Belwal Date: November 25, 2025 Company Secretary and Compliance officer M. No. A39190

### **NATIONAL FITTINGS LIMITED**

CIN: L29199TZ1993PLC008034

Regd.Office: SF No.112, Madhapur Road, Kaniyur Village, Via Karumathampatti - 641 659, Coimbatore District, Phone No : 99432 93000, e-mail: nationalfittingsltd@gmail.com

#### **NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING** Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013

and Rule 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and various Circulars issued by MCA and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable laws, rules the Company is seeking approval of members for the 1. Appointment of Mr Anil Kumar Agarwal as Director

- 2. Appointment of Mr Arpit Agarwal as Director
- 3. Appointment of Mr Arpit Agarwal as Managing Director
- 4. Appointment of Mr Jayaram Govindarajan as Joint Managing Director 5. Reclassification of the status of Mr A V Palaniswamy from Promoter to 'Public' Shareholder
- 6. To approve material related party transaction with related parties The Postal Ballot Notice, explanatory statement and e-voting instructions have been sent to the members through

electronic mode on Monday 24th November, 2025 to the shareholders whose names are recorded in the register of members or beneficial owners maintain by Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and depositories on 21st November, 2025 (cut-off date). The voting rights of the members shall be in proportion to the shares held by them as on cut-off date. This Notice has also been made available on the website of the Company www.nationalfitting.com; website of the BSE and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility. The remote e-voting shall commence on Tuesday, November 25, 2025 at 09.00 AM and shall end on Wednesday, December 24, 2025 at 05.00 PM E voting shall not be allowed beyond 5.00 PM on 24.12.2025 and the e-voting module shall be disabled by NSDL

and members will not be allowed to vote thereafter. For physical shareholders who have not registered their e-mail address with the RTA may provide the necessary details to the Company at nationalfittingsltd@gmail.com or RTA at info@npms.mufg.com and for demat shareholders please update your e-mail id and mobile number with your respective Depository Participants. If you have any queries or issues regarding remote e-voting from the NSDL e-voting system may refer the FAQ for e-voting and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com

send an email to evoting@nsdl.co.in or call on toll free no: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 The results of the postal ballot shall be announced on or before December 29, 2025 and shall be uploaded in the website of the Company and will be communicated to BSE and NSDL.

or send your request to NSDL, Trade World-A wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013 or

FOR NATIONAL FITTINGS LIMITED

Place: COIMBATORE S. Aravinthan Date : 24.11.2025 **Company Secretary** 

**DARSHAN ORNA LIMITED** Regd. Off.: Survey No. 02105+2106/3/Lawar Ni Pole, Shekh Sariya Chambers, Madan Gopal Haveli Road, Manek Chowk, Ahmedabad, Gujarat, 380001

This is only an advertisement for information purpose and not for Publication, distribution or release directly or indirectly outside India

Tele. No.: +919510646569: Email: darshanornalimited@gmail.com: Website: www.darshanorna.co.in: CIN Number: L36910GJ2011PLC063745 Promoter: MR. MAHENDRAKUMAR R. SHAH AND MRS. ARUNABEN M. SHAH ISSUE OF UP TO 50029335 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 2 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A

RICE OF RS. 3/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 1/- PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUN UP TO ₹ 1500.88 LAKHS\* (RUPEES FIFTEEN CRORE EIGHTY-EIGHT THOUSAND AND FIVE) ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, OCTOBER 31, 2025 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1.5 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES, FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 173.

We are immensely thankful to all our shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on November 13, 2025 and

closed on November 21, 2025. Out of a total of 636 Applications for 52,744,780 equity shares received, 198 applications for 112,793 equity shares were

rejected on Technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 438 for 52,631,987 Equity Shares, which

was 105.43% of the total issue in terms of the number of Equity Shares applied. The Basis of Allotment was approved in consultation with BSE, the designated

stock exchange on November 25, 2025. The Board of Directors of the Company at its meeting held on November 25, 2025, approved the issue and allotment of 5.00.29.335 Equity Shares. All valid applications have been considered for allotment. The break-up of Applications is given below (Before Technical Rejection):

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
Category	Applications	Received	Equity Shares Applied for			Equity Shares allotted			
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%	
Shareholders	630	99.06	25,769,230	77,307,690	48.86	25,656,437	76969311	51.28	
Renouncees	6	0.94	26,975,550	80,926,650	51.14	24,372,898	73118694	48.72	
Total	636	100	52,744,780	158,234,340	100.00	5,00,29,335	150088005	100	

	100	0=,1 1 1,1 00 100,20 1,0	710 100100 0,000,000	100				
2. Basis of Allotment								
Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)				
Shareholders	432	5,956,773	19,699,664	25,656,437				
Renouncees	6	100,570	24,272,328	24,372,898				
Total	438	6057343	43,971,992	5,00,29,335				

Intimations for Allotment/Refund/Rejection cases: The dispatch of allotment advice-cum-refund/unblocking intimation and the communication of reasons for rejection, as applicable, to the investors, the instructions to the SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA applications were issued on November 25, 2025. The listing application was submitted to BSE on November 25, 2025, and the listing approval is expected to receive on November 26, 2025. The Credit of Equity Shares in dematerialized form to the respective demat accounts of the allottees will be completed on or about November 27, 2025. The trading in the Fully Paid Rights Equity Shares is expected to commence w.e.f. November 28, 2025, subject to receipt of trading permission from BSE. The Rights Equity Shares will trade under the existing ISIN INE671T01028 for the fully paid up equity shares of the company. For further details, please refer to the section titled 'Terms of the Issue – Allotment Advice or Refund / Unblocking of ASBAAccounts" on page 208 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited on page 168.

**REGISTAR TO THE ISSUE** KFINTECH **KFin Technologies Limited** 

New Delhi

Place: Ahmedabad Date: 25<sup>th</sup> November, 2025

Selenium Tower-B, Plot no. 31 and 32, Financial District, Manakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500 032, Telangana, India Telephone.; +917 40 6716 2222: E-mail: uhzaveri.rights@kfintech.com; Investor grievance e-mail: einward ns@kfintech com; Website: www kfintech.com; Contact Person: M Murali Krishna; SEBI registration no.: INRODO000221

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF COMPANY. For DARSHAN ORNA LIMITED

On behalf of the Board of Directors Ritesh Mahendrabhai Sheth

epaper.financialexpress.com

#### फॉर्म नं. आईएनसी-26 िकंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम **30 के अनुसार**]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र खंडपीठ दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में मैसर्स स्किलवे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (CIN:

U74999DL2021PTC389762) जिसका पंजीकृत कार्यालय एच. न. 158, 1ली मंजिल, बीएलके-डी, पीकेटी-16, सेक्टर-3 रोहिणी, लैंडमार्क नजदीक जैन मंदिर, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली, भारत, 110085 पर स्थित है, के मामले एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**रा. रा. क्षेत्र** 

दिल्ली" से "केरल राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 22 नवंबर 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति टउअ-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कंपनी रजिस्ट्रार के पतेः आरओसी बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजे: आवेदक की ओर से और उसके लिए स्किलवे कंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटेड

अब्दल्ला अबबाकर दिनांक: 25.11.2025 स्थानः दिल्ली डीआईएनः ०९७८४७७७

#### सार्वजनिक सुचना केंद्रीय सरकार के समक्ष, रजिस्ट्रार ऑफ

निदेशक

कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की चारा 13

की उप-धारा (३) और सीमित देयता भागीदारी नियम. 2009 के नियम 17 के मामले में वनक्रेस्ट इन्फ्रा एलएलपी (एलएलपीआईएन: एसीएच-9703)

जिसका पंजीकृत पता : 206, दूसरी मंजिल, दीनार भवन, बिल्डिंग नंबर 44,नेहरू प्लेस, नर्ड दिल्ली, दिल्ली- 110019 ....आवेदक / याचिकाकर्ता एलएलपी सर्वसाधारण को सुधित किया जाता है कि **"वनक्रेस्ट इनक्रा** 

एलएलपी" ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा को एक याधिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें। पंजीकत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिख्ली" सं **"हरियाणा राज्य"** में बदलने की अनुमति मांगी गई है। एलएलपी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तादित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है एमसीए--21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और तराके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर **रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और** हरियाणा, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी को उनके नेम्नलिखित पंजीकत कार्यालय पते पर भी भेजें ।

205, दूसरी मॅजिल, दीनार भवन, बिल्डिंग नंबर 44, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली-110019 आवेदक के लिए और उसकी ओर ह

वनक्रेस्ट इन्फ्रा एलएलपी वरुण विस्मानी (नामित साझेदार) **दिनांकः** 25 नवंबर 2025 बीपीआईएन: 00389509

#### प्ररूप संख्या यूआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण

के संबंध में सुचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में

सुचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्ताबित है, की "रोज़बूड इंटरनेशनल" एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय ग्य-के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता

. कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: सभी प्रकार के फनऍचर, सजावटी वस्तुओं और हाईवेयर सामग्रियों का निर्माण, आयात, निर्यात और

. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिसिपि का निरीक्षण खसरा नंबर-582, गांव हिरन कुदना, बोल्टास गोदाम के पास, पश्चिमी दिल्ली - 110041 स्थित पंजीवृत कार्यालय में किया जा सकता है।

सचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

रोज़वुड इंटरनेशनल के लिए और उसकी ओर से

गौतम गुप्ता (भागीदार तिथि : 26.11.2025 अंक्र अग्रवाल (भागीदार स्थानः नई दिल्ली

#### प्ररूप संख्या युआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के माग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में}

सुचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद. लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की "इन्फ्राकीज टैक्नोलॉजीज एलएलपी (एलएलपीआईएनः एसीबी-5994)" एक एलएलपी की कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप मे पंजीकृत किया जाए।

कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: भवनी, गोदामी, उपयोगिताओं और संबंधित सिविल कार्यों और धालु और औद्योगिक वस्तुओं में व्यापार सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक या निजी बुनियादी

डांचे का निर्माण, अनुबंच, नवीनीकरण, डिआइन, इंजीनियरिंग और रखरखाय प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेट ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण बी-0521, पुरी 81, हाई स्ट्रीट, सैक्टर-81, फरीदाबाद-121004 स्थित

पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है। सूचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपने

आपत्ति इस सचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, बेंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पेरिट मामलों के संस्थान. (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुडगांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

इन्प्राकीज टैक्नोलॉजीज एलएलपी की ओर से 1. ऑकत गोयल (नामित साझेदार) महक जैन (नामित साझेदार)

तिथि : 25.11.2025, स्थान : फरीदाबाद

"फॉर्म नं. यूआरसी—2"

अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में राचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और (पंजीकरण हेत् अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

एतदद्वारा यज्ञ सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसरण में, पंद्रह दिन के बाद लेकिन तीस दिन की समाप्ति से पहले केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संख्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर ६,७,८, संक्टर ५, आईएमटी मानेसर, जिला गुडगांव हरियाणा-122050 के रजिरट्रार को एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है कि 'वीएसके एलटेक सॉल्यशंस एलएलपी' एक एलएलपी को कंपनी अधिनिधम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। कंपनी के मुख्य सद्देश्य इस प्रकार है-

एं) सींपटवेयर सर्विस और सॉल्यूशन, टर्नकी सॉल्यूशन, एंड टू एंड सॉल्यूशन सिस्टम इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हाईवेयर, मेरिफेरल्स, नेटवर्किंग ढेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस और दूसरी सहायक गतिविधियों के जेवलपमेंट सहित इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्युशन को डेवलप करना, स्थापित करना, मेंटेन करना, मार्केट करना, एक्सपोर्ट करना और लाइसेंस देना।

बी) भारत या विदेश में सॉफ्टबेयर, फैकेज और एप्लिकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लिकेशन, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग से जुडी सर्विस ओर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दूसरी सर्विस को डेवलप करने, डिजाइन करने मेंटेन करने, बेचने का बिजनेस करना।

तीं) कंपनी की किसी मी एविटविटी के संबंध में रिसर्च और वेदलपमेंट का बिजनेंस करना, उसे करना और दूसरे लोगो द्वारा इसे करने का बढ़ावा देना, और ऐसे किसी भी दूसरे एरिया में जिससे कंपनी के बिजनेस को या कंपनी के साथ ढील करने वाले या होने की संभावना वाले लोगों को फायदा हो सकता है रिसर्च स्टेशन, फैसिलिटी और एस्टैब्सिशमेंट बनाना, मेंटेन करना और ऑपरेट करना और आम तौर पर कंपनी और दूसरे लोगों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में शामिल होना और उसके नतीजों का हिसाब रखना।

प्रस्तावित कंपमी के द्वापट मेमोरेंद्रम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी एच नं, अर्ज्य-51, जी / एफ, जंगपुरा एक्सटेंशन, पोस्ट ऑफिस के पास, जंगपुरा, साऊथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, इंडिया-110014 पर ऑफिस में देखीं जा सकती है।

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि इस एप्लीकेशन पर अपित करने वाला कोई भी व्यक्तिः इस सचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर सेंटल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉपीरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुळगांव हरियाणा—122050 के रजिस्ट्रार की लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है, और इसकी एक कॉपी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी भेज

दिनाक : 25.11.2025

आवेदक का नाम 1. अनीता शम 2. आयुषी शर्मा खजांची

सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड सीएसएल फाइनेस लिमिटेड सीआईएन: L 7 4 8 9 9 D L 1 9 9 2 P L C 0 5 1 4 Limited पंजीकृत कार्यालयः ४१०-४१२, १८/१२, चतुर्थ तल, डब्ल्यू.ई.ए.,

आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 टेलीफोनः 0120-4290650, ईमेलः investor@cslfinance.in, वेबसाइटः www.cslfinance.in भौतिक रोयरों के लिए स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने हेतु

विशेष खिड्की के संबंध में अंतिम अनुस्मारक सूचना भौतिक शेयरों के लिए स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने हेतु विशेष खिड़की

सेबी के सर्कूलर नं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97, तारीख 02 जुलाई, 2025 के मृताबिक, कंपनी भौतिक शेयरधारकों के लिए शेयरों के स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने के अनुरोध को जमा करने के लिए एकमुश्त विशेष खिड़की उपलब्ध करा रही है। यह विशेष खिडकी 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी और उन मामलों पर लागू होगी जहां मूल शेयर हस्तांतरण अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से पहले जमा की गई थीं और दस्तावेजीकरण, प्रक्रिया में कमी या किसी और वजह से वापस कर दी गईं/अनअटेंडेड हो गईं या निरस्त कर दी गईं। हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल करने किए गए शेयरों को इस खिड़की के दौरान सिर्फ विभौतिकीकृत रूप में प्रोसेस किया जाएगा। पात्र शेयरधारक अपनी स्थानांतरण अनुरोध को जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) एमएएस सर्विसेज लिमिटेड टी–34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज II, नई दिल्ली-110020 को जमा कर सकते हैं।

केवाईसी अपडेट करें और विभौतिकीकृत शेयर्स को डीमैट मोड में बदलें। जिन शेयरहोल्डर्स के पास विभौतिकीकृत रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी केवाईसी अपडेट करें और अपने विभौतिकीक शेयर सर्टिफिकेटस को डीमैट फॉर्म (इलेक्टॉनिक फॉर्म) में बदल लें। शेयरहोल्डर्स से यह भी अनुरोध है कि वे अपने दावा न किए गए लाभांश की राशि का दावा करें, नहीं तो, इसे सात साल खत्म होने के बाद शेयर्स के साथ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (आईईपीएफए) को समय पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के लिए

दिनांक : 25.11.2025 स्थान : नोएडा

प्रीति गुप्ता (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

### ऋण वसली अधिकरण-II, दिल्ली के समक्ष

चौधा तल, जीवन तारा विल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ऋण वसली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 व 13 के साथ पठित. बैंक एवम विलीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसुली की घारा 19(4) के तहत सूचना के मामले में दिनांक 28.07.2025

टीए नं.1274/2023

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ......आवेदक

मैसर्स डी के इलेक्ट्रिकल्स एवं अन्य ......प्रतिवादी सेवा में, प्रतिवादी

ही1. मैसर्स ही के इलेक्टिकल्स इसके मालिक श्री धर्मेन्द्र कुमार शाह पुत्र रामकृष्ण शाह के माध्यम से

निवासी आरजेड-16-ए/340 गली नं.10-ए जगदम्बा बिहार बेस्ट सागरपुर नई दिल्ली-46 अन्य पताः आरजेड-16-ए/351 गली नं.10-ए जगदम्बा बिहार बेस्ट सागरपुर

डी2. श्रीमती शोभा देवी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार शाह

नई दिल्ली-46

निवासी आरजेड-16-ए/340 गली नं.10-ए जगदम्बा बिहार बेस्ट सागरपुर नई दिल्ली-46 चुंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने रु.2,10,69,913/- (दो करोड़ दस लाख उनहत्तर हजार

नौं सौ तेरह रूपये मात्र) की वसली के लिए आपके विरूद्ध एक मुकदमा दर्ज कराया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको 17.12.2025 **को प्रातः** 11:00 बजे अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले

पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। सभी मामलों को वीडियो कॉन्क्रेंसिंग या भौतिक के माध्यम से लिया जा रहा है और इसके

(1) सभी अधिवक्ता / वादीगण को "सिस्को वेश्वेक्स" एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड

 "मीटिंग आईडी" एवं "पासवर्ड" सुनवाई की तिथि के लिए माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्टार द्वारा क्या मामलों में डीआरटी आधिकारिक पोर्टल

"drt.gov.in" पर दैनिक बाद सुबी में ही प्रदर्शित किया जाएगा। (3) किसी भी आपातकालीन स्थिति में एडबोकेट्स/लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन नं. 23748478 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

आज 28 जुलाई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।



अधिकरण के आदेशानसार, अनुमाग अधिकारी, डीआरटी-II, दिल्ली

# डिजिटल लिमिटेड

सीआईएन : L63122DL1985PLC373314

पंजीकत कार्यालय : 403 प्रभात किरण. 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली— 110008 दूरभाष : 011-45142374 निगम कार्यालय : कैमौस्टी बिल्डिंग, प्लॉट संख्या 1, 9वीं मंजिल, सेक्टर 16ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301 दूरभाष : 0120-4751818, वेबसाइट : www.quintdigital.in ईमेल : cs@thequint.com भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः जमा करने हेत विशेष विंडो के संबंध में सचना

26 जुलाई, 2025 और 26 सितंबर, 2025 को प्रकाशित हमारे पूर्व समाचार पत्रों के विज्ञापनों के अनुसरण में, हम पुनः यह बताना चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र संख्या 10/2025 के माध्यम से, 26 जुलाई, 2025 को, 26 सितंबर ... सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी- पीओडी / पी / सीआईआर / 2025 / 97 दिनांक 2 जुलाई 2025 के तहत भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुन : प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष विंडो शुरू की गई है। उक्त परिपत्र के अनुसार, जिन निवेशकों ने 01 अप्रैल, 2019 (जिस तिथि से प्रतिभूतियों का भौतिक रूप में हस्तांतरण बंद कर दिया गया था) से पहले भौतिक शेयरों के लिए हस्तांतरण अनरोध प्रस्तत किए थे, और जिनके अनुरोध दस्तावेजों / प्रक्रिया / या अन्य कारणों से अस्वीकार / वापस कर दिए गए

थे / उन पर ध्यान नहीं दिया गया था, उन्हें अब आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐसे हस्तांतरण अनुरोध पुन : प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। निवेशक 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक की छह महीने की विशेष अवधि के दौरान, आवश्यक दस्तावेजों और किमयों को दूर करने के साथ, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास अपने पूर्व अनुरोध पुन : प्रस्तुत कर सकते हैं। निवेशक नीचे दिए गए किसी भी पते पर कंपनी

या आरटीए को दस्तावेज भेज सकते हैं:

क्विट डिजिटल लिमिटेड स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट प्रति, कंपनी सचिव, पता— ४०३, प्रभात

17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली, 110008,

इकाई : क्विंट डिजिटल लिमिटेड पता– ए–506, दत्तानी प्लाजा, अंधेरी कुर्ला रोड, सफेद पल, अंधेरी-पर्व, मुंबई-महाराष्ट्र ४०००७७ ईमेल : pravin.cm@slrylinerta.com ईमेल : cs@thequint.com

अनुपालन में सेबी के दिनांक 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, स्थानांतरण के लिए पुनः जमा की गई प्रतिभृतियाँ (जिनमें आज की तिथि तक कंपनी/आरटीए के पास लंबित अनुरोध भी शामिल हैं) ऐसे स्थानांतरण–सह–डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, केवल डीमैट रूप में जारी हम उन सभी निवेशकों से आग्रह करते हैं जिन्होंने पूर्व में स्थानांतरण अनुरोध प्रस्तुत किए थे और जिन्हें किमयों के कारण अभी तक शेयर प्राप्त नहीं हए हैं. कि वे निवेशकों के हित में शरू की गई इस विशेष सविधा क

क्विंट डिजिटल लिमिटेड के लिए

दिनांकः 25 नवंबर, 2025

तरुण बेलवाल कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या ए३९१९०

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड optiemus CIN: L64200DL1993PLC054086

पंजीकृत कार्यालय: के -20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर - 11, नई दिल्ली-110024 कॉर्परिट कार्पालय: डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 वेबसाइट: www.optiemus.com | ईमेल: info@optiemus.com | फोन: 011-29840906

प्रेस विशापन तद् द्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र खो जाने/गुम हो जाने की सूचना दी गई । और ऐसे शेयर प्रमाणपत्रों के दावेदार ने दुखिकट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी/आरटीए के आवेदन किया है:

फालिया संख्या	शेयरधारक का नाम	प्रमाणपुत्र संख्या(ए)	विशिष्ट संख्या(एँ)	शयरा की संख्या
0000298	करोडी मल बंसल	21224- 21227	2121501-2121900	400
		21271-21290	2126201-2128200	2,000
	1	21301-21304	2129201- 2129600	400
		21321-21321	2131201-2131300	100
		21324- 21324	2131501- 2131600	100
	1	21328- 21334	2131901-2132600	700
	[	21340-21343	2133101-2133500	400
		21350- 21353	2134101- 2134500	400
		21362- 21368	2135301- 2136000	700
		21373-21373	2136401- 2136500	100
		कुल		5,300
	संख्या	संख्या यायरधारक का नाम 0000298 करोडी मल वंसल	संख्या थायरधारक का नाम संख्या(एँ)  0000298 करोडी मल बंसल 21224- 21227 21271- 21290 21301- 21304 21321- 21321 21324- 21324 21328- 21334 21340- 21343 21350- 21353 21362- 21368	संख्या शपरधारक का नाम संख्या(ए) विशिष्ट संख्या(ए)  0000298 करोडी मल बंसल 21224- 21227 2121501- 2121900 21271- 21290 2126201- 2128200 21301- 21304 2129201- 2129600 21321- 21321 2131201- 2131300 21324- 21324 2131501- 2131600 21328- 21334 2131901- 2132600 21340- 21343 2133101- 2133500 21362- 21368 2135301- 2136000 21373- 21373 2136401- 2136500

कोई भी व्यक्ति जिसके पास उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्र के संबंध में कोई दावा(वें) है इस नीटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इस तरह के दावे को '**ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड**' कंपनी के पास डी-348. सेक्टर-63. नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 में स्थित उनके कॉर्पोरेट कार्पालय में दर्ज कराना चाहिए य info@optiemus.com पर लिखें, जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी हुप्लीकेट शेपर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी।

दिनांक: 25 नवम्बर 2025

विकास चंद्रा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के लिए

हस्ता/



स्थानः दिल्ली

स्थान : नीएडा

1 202

जगना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन: L35911HR1965PLC004485

पंजीकृत कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर - 135001, हरियाणा कॉपोरेंट कार्यालय: युनिट नंबर 408,4वीं मीजल, टाबर-बी, वाटिका माइंडस्केप्स, सेक्टर-27डी, एनएच2, फरीदाबाद-121003( हरिवाणा )

दूरभाष. 0129-4006885; वेबसाइट: www.jaispring.com इंमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com

पोस्टल बैलट की सुचना

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पटित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102, 108, 110 और अन्य लाग् प्रावधानों, यदि कोई हो, , भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमन 44 और कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी इस विषय पर सभी लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 01 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2028 तक 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री आर. एस. जीहर (डीआईएन: 00746186) की नियक्ति के लिए विशेष प्रस्ताव केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों के विचार के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

कंपनी ने 24 नवंबर, 2025 को पोस्टल बैलेट नोटिस ('नोटिस') केवल डलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दिया है, जिनके ई-मेल पते कट-ऑफ तिथि यानी बधवार, 19 नवंबर, 2025 को डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत थे। जिन सदस्यों के इंमेल पते आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे अपने ईमेल पते को आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ नोटिस में उल्लिखित के अनुसार पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। नोटिस, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की भौतिक प्रतियां सदस्यों को नहीं भेजी जा रही हैं।

कृपया ध्यान दें कि केवल वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर आरटीए/डिपॉजिटरी द्वारा प्रवंधित सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। जिस तरह से भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिनके ईमेल पते कटऑफ तिथि तक पंजीकत नहीं हैं. वे नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं। नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://jaispring.com/annual-and-financial-report- financial.aspx?financial-year=2025-2026 पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाहट www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है। जिन सदस्यों को नोटिस नहीं मिला है ये इसे उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि ये केवल ई-बोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति (के पक्ष में) या असहमति (विरुद्ध) प्रदान करें। कंपनी ने सदरयों को रिमोट ई-बोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं। ई-बोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया नीटिस में दी गई है। रिमोट ई-बोटिंग अवधि रविवार, 30 नवंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और सोमधार, 29 दिसंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सविधा को अक्षम कर दिया जाएगा।

 ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी मुद्दे/प्रश्न के मामले में, सदस्य एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल के टोल फ्री नंबर 022 - 48867000/022 - 24997000 पर कॉल कर सकते हैं या investor.relations@jaispring.com पर मेल भेज सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-घोटिंग के माध्यम से इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मैसर्स आरएसएम एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्नेटरी (सदस्यता संख्या 4468) को संबीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग द्वारा पोस्टल बैलेट की संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणाम ई-वोटिंग प्रक्रिया के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और यह कंपनी, एनएसडीएल, एनएसई और बीएसई की वेबसाइटी पर उपलब्ध होंगे।

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए प्रवीण लखेरा कंपनी सचिव एवं प्रमुख-विधि दिनांकः 25 नवंबर, 2025

> Orchies The nost special way to say you care

आर्चीन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 191एफ, सेक्टर-4, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050 सीआईएन: L36999HR1990PLC041175,

वेब : www.archiesonline.com और www.archiesinvestors.in ईमेल : archies@archiesonline.com, दूरभाष : +91 124 4966666 डाक मतपत्र और दूरस्थ ई-वोटिंग की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और 22, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ('एसएस–2') द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक, प्रत्येक संशोधित, सामान्य परिपत्र संख्या १४ / २०२० दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १७ / २०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२० और समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 है जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ('एमसीए परिपत्र') ई–वोटिंग के माध्यम से सामान्य बैठकें आयोजित करने / डाक मतपत्र प्रक्रिया संचालित करने तथा किसी अन्य लागू कानून, नियम और विनियमों के लिए कि नीचे दिए गए संकल्प को कंपनी के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('रिमोट ई–वोटिंग') के माध्यम से मतदान करके अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

क्र. सं.	विवरण	प्रस्ताव का प्रकार
1	मैसर्स दयाल एंड मौर, कंपनी सचिवों की लगातार 5 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति।	साधारण प्रस्ताव
2	श्री रिजुल बंसल की कंपनी के अकार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष प्रस्ताव

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मंगलवार 25 नवंबर, 2025 को उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से डाक मतपत्र नोटिस भेजा है, जिन्होंने कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए) यानी एमयजीएफ इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं और जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के साथ बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख यानी 14 नवंबर 2025 तक दिखाई देता है। मतपत्र फॉर्म के साथ डाक मतपत्र नोटिस की भौतिक प्रति नहीं भेजी जा

पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://archiesinvestors.in/investors/, स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई और एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड https://instavote/linkintime.co.in/ पर भी उपलब्ध होगा।

कंपनी ने इंस्टावोट की सेवाएँ ली हैं, जिससे सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में दी गई।

ई-वोटिंग के लिए निर्देशः

स्थान : गुरुग्राम

दिनाँक : 25-11-2025

रिमोट ई—वोटिंग ब्धवार, 26 नवंबर 2025 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होकर गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक चलेगी। इस अवधि के दौरान, कट–ऑफ तिथि तक भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 तक रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सहमति (समर्थन में) या असहमति (विरोध में) दर्ज कराएँ। सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। वे सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपनी ई–मेल आईडी अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर—1 (पैन, केवाईसी विवरण या उसमें परिवर्तन/अपडेशन के लिए फॉर्म) के साथ पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति और पते के प्रमाण के रूप में किसी भी दस्तावेज की स्व–सत्यापित प्रति (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मास्क्ड आधार, आदि) कंपनी के आरटीए को नीचे दिए गए पते पर या enotices@in.mpms.mufg.com पर ई—मेल द्वारा जमा करके इसे अपडेट

कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') ने शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मैसर्स दयाल एंड मीर कंपनी सेक्रेटरीज (सीओपी संख्याः 7142) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई—वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट के संचालन के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया।

यदि प्रस्ताव अपेक्षित बह्मत से पारित हो जाते हैं, तो उन्हें ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि, यानी गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को पारित माना जाएगा, मानो वे शेयरधारकों की आम बैठक में पारित

परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड ('बीएसई'), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') (सामूहिक रूप से 'स्टॉक एक्सचेंज') और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे, और कंपनी की वेबसाइट www.archiesinvestors.in पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। किसी भी प्रश्न के लिए, आप https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या enotices@in.mpms.mufg.com अथवा investorservices@archiesonline.com पर ईमेल लिख सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिए गए सभी निर्देशों और विशेष रूप से रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की विधि को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बोर्ड के आदेशानुसार

> कृते आर्चीज लिमिटेड हस्ता. /-(चिरंजीवी रामका) कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

(Q) pnb Housing

स्थान : जनकपुरी, दिनौंक : 25--11--2025

Galliger anciding : Ant own shallon wore, 22, th. lift. seed. at 1848-110001. grams st.: 011.23557171, 23557172, 2355414, Benene: www.politionsk शाखा कार्यालय :- सी2/21, फर्स्ट फ्लोर, सी ब्लॉक, माता चानन देवी रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली -- 110056

पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्मिमाँग तथा प्रतिभूति हित प्रयतंत्र अधिक्यम 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अंतर्गत सुवना 2002 (वहीं इसमें इसके उपरीत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अध्यय ।।। की बात 15(2) के आगंत हमारी जनकपुरी शरका के कार्यालय जी सी2/21, फर्स्ट फ्लॉर सी ब्लॉक मा बनन देवी रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110088 में स्थित है के मध्यम से मीग सुबना निर्मेश की थी। जका मीग सुबना जो है वह हमारे प्राधिकृत अधिकारी के नाध्यम से मीथे वर्षित क्ष लगे उधारकवांओं / सह-उचारकवांओं /मारंटरों को निर्मत की मई थी और ऐसा इससिये किया गया वा क्योंकि आपके खाते को किसती / ध्याप का भुगतान न करने के कारण मारती। रिकर्ष बैंक 🗸 राष्ट्रीय आवासन बैंक के विकानिर्देशों के अनुसार अनिवादनकारी परिचंपतियों के रूप में पर्गीकृत कर दिया नवा था। एस की विषयकरा को 8 वह मुख्यन, ब्याज इत्यादि व किरलों के मुगतान में आपके द्वारा की गई चुके हैं। बकायाँ पत्ति का परलेखन नीचे लालिका में किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनेक कररमों से, हम मानते हैं कि आर माँग सुवना लनानुपालन करने से बच एडे हैं और इसलिये हम एक अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत भी अनिवार्य बन चुंबी इस मींग सूचना का यह फकारान कर रहे हैं। आपको एतन्हारा इस मीं सबना के प्रकारन की लिखि से 80 दिनों की एकावरि के बीतर पीएनबीएबएफएन को अधानन ब्याज और शकते के साथ निम्न तालिका में अंकित राष्ट्रि का भगवान करने का निर्देश देते हैं नतान करने में विफल होने पर वीएनबीएवएफएल जो है वह उस्त अधिनियम की धारा 15(4) के सकी या किसी भी प्रावधान के तहत सभी प्रतिभूत परिसर्पतियों वा इनमें से किसी एक या अधिक के विरुद्ध अनिवार्य कार्रवाई / उपप्रय करेगी, जिसमें जवारकर्ताओं और गारटरों की प्रतिभूत परिसंपतियों पर अधिवरण किए जाने की कार्रवर्त्य में सम्मिन्सित होगी। आवका ध्यान, वितीय परिसंपतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निभांग तथा मिरिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन 2002 की धारा 13 की उप-धारा (ब) के प्रावधानी की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिस भंतर्गत आप निजी सबि द्वारा अनाव में कोटेकर व निविदा निजीवत करके सार्वजनिक नीतामी द्वारा प्रतिमृत परिशयतियों के विक्रयार्थ सुदन्त के प्रकारण जी तिथि तक ही पीएनबीएचएकए द्वारा कल्कृत रामक्त लागले, प्रमारों एवं करते के साथ कराये की लागूर्ग लोके का पुगतान कर सकते हैं / यस चुका सकते हैं। कृष्या स्थान में कि यदि निजी सीचे प्रारा ज्याना जाते हैं। कोटेकने व निविदा निजीवत करके कार्यजनिक नीतानी प्रारा प्रतिभूत परिकारतियों के विकासमें सूचना के प्रतासन से पूर्व पीएनबीएचएकएल प्रारा करनकृत समस्त लागती, प्रमारों एवं वालों के सा

तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभृति हित (प्रवर्तक) नियमावसी 2002 के नियम 3(1) के साथ

जनसता

अतिरिक्त आनेको उक्त अधिनेयम की भारा 13(13) के आर्थत विकास यहा के मध्यम से अध्या किसी सी अन्य विधि से उपयुक्त प्रतिसूत परिसर्गतियों का इस्तीतरण करने से प्रतिसंधित विध व्याकार्त एवं तक-व्याकार्त क्षक्तृता संपति चौग सूचना तिथि 亷 गारंटर का ऋग के अनुसार बकाय राति खाता संख्या HOU from 2th 1970s (minoral) die 40es Fest 1987 VF 6. 29.47.MS.15 /- (841) प्राथमरी-267, ३, टावर- ए एमजेए बीन मॅडान तीम लाव सैवित्स हजार छ JAN क्षेत्र करि च्यूप वर्षट वर्णा व्यूच

बकावं की संपूर्व राशि का भूगतान नहीं किया जाता है / उसे नहीं यूकाया जाता है तो इस अवधि के उपरीत आप प्रतिभूत परिसर्पनि(यो) को ऋपमुक्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। इस

बेटर नीएस. पत्तर प्रदेश - 201301 वि बेसने प्रीप्तव-वन्तव गोसरर – १३, उस्तवन जीत पीतम बुद्ध न १८ ११ २०२५ में अनुसार बनाया क्षण पोतान, तथा बनेत-201361 कीलो कीले पानिस हाजानक तथा 3- नेवार्ग पानिस प्रतिवेदाल, तरित पोत- कै. ह./ ६ जा तथार, बर्गाक-में, समझ स्टीम, त्रीम पान- मिली - 11804 बी औ: प्राधिकत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SEBI (SUBSTANTIAL

ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

#### V.I.P. INDUSTRIES LIMITED CIN: L25200MH1968PLC013914

Registered office: 5th Floor, DGP House, 88 C, Old Prabhadevi Road, Mumbai, Maharashtra, 400 025, Tel No.: +91 (22) 6653 9000; Website: www.vipindustries.co.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 3,70,56,229 (THREE CRORE SEVENTY LAKH FIFTY SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND TWENTY NINE ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF INR 2/- (INDIAN RUPEES TWO ONLY) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 26.03% (TWENTY SIX POINT ZERO THREE PERCENT) OF THE EXPANDED SHARE CAPITAL OF V.I.P. INDUSTRIES LIMITED ("TARGET COMPANY"), AT A PRICE OF INR 388.00/- (INDIAN RUPEES THREE HUNDRED AND EIGHTY EIGHT ONLY) PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE"), IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS"), FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY MULTIPLES PRIVATE EQUITY FUND IV ("ACQUIRER 1"), MULTIPLES PRIVATE EQUITY GIFT FUND IV ("ACQUIRER 2", AND TOGETHER WITH ACQUIRER 1, "ACQUIRERS"), TOGETHER WITH SAMVIBHAG SECURITIES PRIVATE LIMITED ("PAC 1"), MITHUN PADAM SACHETI ("PAC 2"), SIDDHARTHA SACHETI ("PAC 3") AND PROFITEX SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED ("PAC 4", AND TOGETHER WITH PAC 1, PAC 2 AND PAC 3, "PACS"), IN THEIR CAPACITY AS PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRERS, PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER")"OPEN OFFER").

This post offer advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by JM Financial Limited, the manager to the Open Offer ("Manager to the Offer" or "Manager"), in respect of the Open Offer, for and on behalf of the Acquirers and the PACs to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST)

This Post Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated July 13, 2025 ("PA"); (b) the Detailed Public Statement that was published in Financial Express - English (all editions), Jansatta Hindi (all editions) and Navshakti - Marathi (Mumbai edition) on July 18, 2025 ("DPS"); (c) the Letter of Offer dated October 23, 2025, along with Form of Acceptance ("LOF"); and (d) the Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the DPS ("Pre-Offer Advertisement") that was published on October 31, 2025, in all the newspapers in which the DPS was published. This Post Offer Advertisement is being published in all the newspapers in which the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the LOF. The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open Offer:

1.	Name of the Target Company:	V.I.P. Industries Limited
2.	Name of the Acquirers and PACs:	Multiples Private Equity Fund IV (Acquirer 1) Multiples Private Equity GIFT Fund IV (Acquirer 2) Samvibhag Securities Private Limited (PAC 1) Mithun Padam Sacheti (PAC 2) Siddhartha Sacheti (PAC 3) Profitex Shares and Securities Private Limited (PAC 4)
3.	Name of the Manager to the Offer:	JM Financial Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer:	KFin Technologies Limited
5.	Offer Details:	-
	a) Date of Opening of the Offer:	Monday, November 3, 2025
	b) Date of Closure of the Offer:	Monday, November 17, 2025
6.	Date of Payment of Consideration:	Thursday, November 20, 2025

-	b) Date of Closure of the Orier;	y, November 17, 2025					
6.	Date of Payment of Consideration:	Thursday, November 20, 2025					
. De	etails of Acquisition:						
SI. No.	Particulars	Propose	ed in the LOF <sup>(1)</sup>	Act	uals <sup>(1)</sup>		
7.1	Offer Price (per Equity Share)	INR 388.00/-		INR 388.00/-			
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered in the Offer	3,70,56,229(2)		23,623 <sup>(3)</sup>			
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted in the Offer	3,7	0,56,229(2)	23,	623 <sup>(3)</sup>		
7,4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price)	INR 1,43	37,78,16,852/- <sup>(2)</sup>	INR 91	,65,724/-		
7.5	Shareholding of the Acquirers and the PACs before agreements/ public announcement  Number  Mof Equity Share Capital	Acquirer 1; Nil (0.00%) Acquirer 2; Nil (0.00%) PAC 1; Nil (0.00%) PAC 2; Nil (0.00%) PAC 3; Nil (0.00%) PAC 4; Nil (0.00%)  Acquirer 1; 28,58,544 (2.01%) <sup>(6)</sup> Acquirer 2; 31,52,461 (2.21%) <sup>(6)</sup> PAC 1; 22,12,517 (1.55%) <sup>(4)</sup> PAC 2; 83,277 (0.06%) <sup>(4)</sup> PAC 3; 83,277 (0.06%) <sup>(4)</sup> PAC 4; Nil (0.00%)		Acquirer 1: Nil (0.00%) Acquirer 2: Nil (0.00%) PAC 1: Nil (0.00%) PAC 2: Nil (0.00%) PAC 3: Nil (0.00%) PAC 4: Nil (0.00%) Acquirer 1: 28,58,544 (2.01%) Acquirer 2: 31,52,461 (2.21%) PAC 1: 22,12,517 (1.55%) PAC 2: 83,277 (0.06%) PAC 3: 83,277 (0.06%) PAC 4: Nil (0.00%)			
7.6	Equity Shares acquired by way of agreements  Number  More Capital						
7,7	Equity Shares acquired by way of Open Offer  Number  More Capital	Acquirer 1: 1,26,25,261 (8.87%) <sup>(2)</sup> Acquirer 2: 1,39,23,381 (9.78%) <sup>(2)</sup> PAC 1: 97,71,967 (6.86%) <sup>(2)</sup> PAC 2: 3,67,810 (0.26%) <sup>(2)</sup> PAC 3: 3,67,810 (0.26%) <sup>(2)</sup> PAC 4: Nil (0.00%)		Acquirer 1: Acquirer 2: PAC 1: 6, PAC 2: 2 PAC 3: 2	8,049 (0.01%) 8,876 (0.01%) 230 (0.00%) 34 (0.00%) 34 (0.00%)		
7.8	Equity Shares acquired after Detailed Public Statement <sup>(7)</sup> • Number and price of Equity Shares acquired • % of Equity Share Capital		Nil (Nil)		Nil Nil)		
7.9	Post Offer shareholding of the Acquirers and the PACs  Number  Graphs of Equity Share Capital	Acquirer 1: 1,54,83,805 (10.87%) <sup>[2]</sup> Acquirer 2: 1,70,75,842 (11.99%) <sup>[2]</sup> PAC 1: 1,19,84,484 (8.42%) <sup>[2]</sup> PAC 2: 4,51,087 (0.32%) <sup>[2]</sup> PAC 3: 4,51,087 (0.32%) <sup>[2]</sup> PAC 4: Nil (0.00%)		Acquirer 2: 31, PAC 1: 22,18 PAC 2: 83, PAC 3: 83,	66,593 (2.01%) <sup>(</sup> 61,337 (2.22%) <sup>(</sup> 3,747 (1.56%) <sup>(6)</sup> 511 (0.06%) <sup>(6)</sup> 511 (0.06%) <sup>(6)</sup> Will (0.00%)		
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public Shareholders <sup>(8)</sup>	Pre-offer	Post-offer(2)	Pre-offer	Post-offer		
	Number	6,93,63,107	3,23,06,878	6,93,63,107	6,93,39,484		
	% of Equity Share Capital	(48.72%)	(22.69%)	(48.72%)	(48.70%)		

(1) Percentage calculated based on the Expanded Share Capital as on the date of the LOF, i.e., 14,23,80,784 Equity Shares.

Assuming full acceptance in the Open Offer. (3) All the 23,623 Equity Shares that were validly tendered in the Open Offer are in dematerialised form.

(4) Computed assuming full acceptance in the Open Offer and, consequently, no Tranche 2 Sale Shares will be acquired by the Acquirers, PAC 1, PAC 2 and PAC 3 under the SPA. In terms of the SPA, the number of Tranche 2 Sale Shares to be acquired by the Acquirers, PAC 1, PAC 2 and PAC 3 will depend on the number of Equity Shares tendered and accepted in the Open Offer. (5) Pursuant to the SPA, on September 26, 2025, the Acquirers and the PACs have acquired an aggregate of 83,90,076 Equity

Shares, representing 5.89% of the Expanded Share Capital. In terms of the SPA, the Acquirers and the PACs propose to additionally acquire the Tranche 2 Sale Shares, i.e., up to a maximum of 3,70,56,229 (three crore seventy lakh fifty six thousand two hundred and twenty nine) Equity Shares, representing 26.03% of the Expanded Share Capital, reduced by the number of Equity Shares tendered and accepted in the

(7) Excluding those Equity Shares specified in sl. nos. 7.6 and 7.7.

(8) Includes 3,29,350 Equity Shares that may be allotted pursuant to exercise of 3,29,350 employee stock appreciation rights that have vested / are expected to vest on or prior to March 31, 2026 (assuming 1 Equity Share is allotted upon exercise of

8 Other information

8.1 The Acquirers and the PACs accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also

for the obligations of the Acquirers and the PACs laid down in the SEBI (SAST) Regulations in respect of the Open Offer. 8.2 A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and at the registered office of the Target Company

Issued on behalf of the Acquirers and the PACs by the Manager to the Offer

JM Financial Limited

Address: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025, India Telephone: +91 22 6630 3030; Fax: +91 22 6630 3330 E-mail: vipind.openoffer@jmfl.com JM Financial Contact Person: Prachee Dhuri Website: www.jmfl.com SEBI Registration Number: INM000010361

Serilingampally, Hyderabad, Telangana, India, 500032

Registrar to the Offer KFin Technologies Limited Address: Selenium, Tower- B. Plot No. 31 & 32, Financial district, Nanakramguda,

SEBI Registration Number: INR000000221

CIN: L72400MH2017PLC444072

Telephone: +91 40 6716 2222/18003094001; Fax: +91 40 6716 1563 E-mail: vipindustries.openoffer@kfintech.com ▲ KFINTECH Investor Grievance E-mail: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna Website: www.kfintech.com

Place: Mumbai Date: November 25, 2025

Adfactors 650/25